



छापेमारी में खुलासा / हांसी में बनाते थे नामी कंपनी के कूलरों की कॉपी, सप्लाई डबवाली तक



डबवाली। शहर में श्री साई इलेक्ट्रिकल सहित दुकानों से जब्त नकली कूलर ।

- चंडीगढ़ से हैवल्स कंपनी की ओर से स्पीड नेटवर्क डायरेक्टर के नेतृत्व में पहुंची टीम की करवाई में हुआ खुलासा
- डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर पूरे हरियाणा में की जा रही थी उपकरणों की सप्लाई

Hindi News | Local | Haryana | Hisar | Dabwali

Used to make copies of famous company coolers in Hansi, supply till Dabwali

Jul 10, 2020, 06:57 AM IST

डबवाली. शहर में लोक डाउन और गर्मियों के सीजन में उपभोक्ताओं को ठगने के लिए हैवल्स कंपनी के ब्रांडेड नाम पर नकली कूलर बेचे जा रहे थे। इसका खुलासा गुरुवार को शहर में चंडीगढ़ से हैवल्स कंपनी की ओर से स्पीड नेटवर्क डायरेक्टर के नेतृत्व में पहुंची टीम की करवाई में हुआ। डायरेक्टर के साथ पुलिस टीम की जांच के दौरान शहर पुलिस ने श्री साई इलेक्ट्रिक्स और सीताराम सुरेश कुमार फर्म गोदाम से बड़ी संख्या में कूलर बरामद किए हैं वहीं एक सप्लायर और निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है।

गुरुवार को चंडीगढ़ से आई हैवल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से स्पीड नेटवर्क डायरेक्टर रमेश कुमार भट्ट के नेतृत्व टीम ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्थित फर्म सीताराम सुरेश कुमार के गोदाम पर छापेमारी करते हुए जांच की जिसमें संचालक विककी बंसल की निशानदेही पर शहर में बड़े स्तर पर हैवल्स के नकली कूलर बेचे जाने का खुलासा हुआ।

जांच में यह भी सामने आया कि फर्म संचालक के हांसी में रहने वाले रिश्तेदार इन नकली कूलर का निर्माण करते हैं और हैवल्स के ब्रांड का इस्तेमाल करते हुए पूरे हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर सप्लाई की जा रही है।

पुलिस टीम के साथ कार्रवाई के दौरान विककी बंसल ने शहर में हैवल्स के अधिकृत डीलर श्री साई इलेक्ट्रिक अनाज मंडी डबवाली के शोरूम में यह नकली कूलर बेचे जाने का भी खुलासा किया। जिससे पुलिस टीम के साथ स्पीड नेटवर्क डायरेक्टर ने पहुंचकर हैवल्स के नाम पर बेचे जा रहे नकली कूलर बरामद किए और अन्य सप्लायर मोहित गोवर निवासी नजदीक बीकानेर हॉस्पिटल की धरपकड़ कराते हुए फर्मों से नकली कूलर सप्लाई करने का मामला उजागर किया। शहर पुलिस टीम ने स्पीड नेटवर्क टीम डायरेक्टर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।

हांसी थाना में भी मामला पहले से दर्ज

इस बारे में शहर थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा ने बताया कि हैवल्स की ओर से स्पीड नेटवर्क डायरेक्टर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। जिसमें बड़ी मात्रा में नकली कूलर जब्त कर लिए गए हैं।

पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में हांसी थाना में भी मामला पहले से दर्ज है।

शहर और गांवों की कई दुकानों और ग्राहकों पर किए गए सप्लाई

हैवल्स के नकली कूलर पकड़े जाने के दौरान अन्य कंपनियों के लिए इसी प्रकार फर्जी ब्रांड इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिक व अन्य उपकरण बेचे जाने की आशंका है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि हैवल्स कंपनी के बड़ी मात्रा में कूलर बनाकर शहर और आसपास के गांवों में बेचे जा चुके हैं और कई दुकानदारों को गांव व पंजाब एरिया में भी सप्लाई किए हुए हैं। इससे पहले भी शहर में नकली घी और गीजर सहित अन्य सीजनल जरूरी उपकरणों के ब्रांड को फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर नकली सामान बेचे जाने का मामला भी सामने आ चुके हैं।